

प्रेस विज्ञप्ति

**जामिया में "इनहेबिटिंग ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड: कॉन्सेप्ट्स, थियोरीज़, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स"
पर छठे स्पार्क कोर्स का उद्घाटन**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने 7 जुलाई, 2021 को "इनहेबिटिंग ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड: कॉन्सेप्ट्स, थियोरीज़, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स" पर छठे स्पार्क कोर्स (ऑनलाइन) का उद्घाटन किया।

शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग प्रोन्नति योजना (स्पार्क), शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार द्वारा समर्थित यह कोर्स अंग्रेजी विभाग, जामिह तथा अमेरिकन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ़ वुर्जबर्ग, जर्मनी के सहयोग से आयोजित किया गया और प्रो. इसाबेल कर्रेमैन, अंग्रेजी विभाग, ज्यूरिख विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल पीआई द्वारा पढ़ाया जाएगा।

उद्घाटन समारोह का संचालन अंग्रेजी विभाग, जामिया की पीएचडी स्कॉलर सुश्री श्रद्धा ए सिंह ने किया। जिसमें कई विभिन्न विषयों के विद्वानों, छात्रों और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रो. सिमी मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, जामिया, भारतीय पीआई ने अतिथियों, मेजबान संकाय और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। उन्होंने 2019 में शुरू हुई स्पार्क योजना के तहत विश्वविद्यालय के एक बड़े शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के हिस्से के रूप में पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की और बताया कि इसका उद्देश्य वैश्वीकृत दुनिया की अवधारणा है जिसमें हम सभी, व्याख्यान की एक श्रृंखला के माध्यम से जुड़े रहते हैं जो कि आने वाले हफ्तों के दौरान आयोजित किया जाएगा।

मुख्य अतिथि, जामिया की कुलपति, प्रो नजमा अख्तर ने पूरे भारत और विभिन्न विषयों के शिक्षाविदों और विद्वानों के समूह का स्वागत करते हुए उद्घाटन वक्तव्य दिया और भारत तथा दुनिया भर की समकालीन सांस्कृतिक प्रथाओं तथा ज्ञान प्रणालियों को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक वैश्वीकृत दुनिया में रहने की स्थितियों के लिए नवीन दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं की पेशकश के पाठ्यक्रम की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और प्रतिभागियों को उत्साह के साथ पाठ्यक्रम से सीखने और योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पाठ्यक्रम को परिभाषित करने वाले विषयों पर विस्तार से बताते हुए, प्रो. इसाबेल कर्रेमैन ने पाठ्यक्रम की शुरुआत की और पाठ्यक्रम की सहभागी और सहयोगी प्रकृति के बारे में विवरण साझा करके इसके लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

समकालीन समय में एक घटनापूर्ण, रोमांचक और आवश्यक पाठ्यक्रम होने का वादा करते हुए, ज़हरा रिज़वी, पीएच.डी. अंग्रेजी विभाग, जामिया द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ छठे स्पार्क पाठ्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे उद्घाटन कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया।